

August 02, 2023

BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, C-1, Block G

Dalal Street Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 001 Mumbai, Maharashtra – 400 051

Scrip Code: 542729 Symbol: DCMNVL

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Notice of 07th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, August 24, 2023 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"); and Remote E-Voting;

In pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements published today i.e., August 02, 2023, intimating that the 07th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 24, 2023 at 11:00 a.m. IST through VC/OAVM, in the following newspapers:

Sr. No. Newspaper		Edition & Language		
1.	Financial Express	All India in English Language		
2.	Jansatta	Delhi in Hindi		

The same is also uploaded on the website of the Company and can be accessed at https://www.dcmnvl.com/2023-24176.html

We request you to please take the above on record.

Thanking You, Yours Faithfully,

For DCM Nouvelle Limited

Mohd Sagir Company Secretary & Compliance Officer Membership No. F11061

FINANCIAL EXPRESS

000

DCM NOUVELLE LIMITED NOUVELLE CIN: L17309DL2016PLC307204

Regd. Office: 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi-110008 | Tel: 011-43678490

E-mail: info@dcmnvl.com | Website: www.dcmnvl.com

NOTICE OF THE 07th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING Notice is hereby given that the 07th Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 24, 2023 at 11:00 a.m.

IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice convening the Meeting ("Notice"). Pursuant to General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other Circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other Circulars issued by SEBI in this regard (collectively

2023. Accordingly, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

In accordance with the said MCA and SEBI Circulars, the Company has sent the Notice along with the Annual Report of the Company for FY 2022-23 through electronic mode only to all its members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants ("DPs"). The electronic dispatch of the Notice and the Annual Report has been completed on August Members may note that the Annual Report including the Notice is also available on the

website of the Company at www.dcmnvl.com, the website of National Securities Depository

Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com and on the website of BSE Limited at

www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

referred to as "SEBI Circulars"), companies are permitted to convene the AGM through VC

or OAVM without physical presence of the Members at a common venue till September 30,

in terms of the applicable provisions, the Company has engaged the services of NSDL as the Agency for providing e-voting facility (remote e-voting before the AGM and e-voting during the AGM) to the Members of the Company to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM through electronic voting system. The Members can join and attend the AGM through VC/OAVM facility only. The detailed procedure for e-voting and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notes to the Notice. The Members may join the Meeting thirty (30) minutes before the scheduled time and the login shall be kept open throughout the Meeting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The remote e-voting facility before the date of the AGM will be available during the following voting period (both days inclusive):

vote through remote e-voting may cast their vote during the AGM.

Those Members who participate in the AGM through VC/ OAVM and have not casted their

Commencement of remote e-voting From 9.00 a.m. (IST) on 21st August 2023 End of remote e-voting Upto 5.00 p.m. (IST) on 23rd August 2023 The remote e-voting module shall not be allowed beyond the aforesaid date and time and shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Friday, August 18, 2023. only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before the AGM and facility of evoting during the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the AGM Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Any person holding shares in physical mode or who acquires shares and becomes a Member of the Company after the Notice is sent and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password for facility of remote e-voting or evoting during the AGM by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

In case of any queries/complaints related to e-voting i.e., before and/or during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or call at 022 4886 7000 or 022 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, at evoting@nsdl.co.in.

Members whose email ID is not registered and who wish to receive the Notice, Annual Report and all other communications by the Company, from time to time, may get their email IDs registered by submitting Form ISR-1 to Skyline Financial Services private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, at info@skylinerta.com or to the Company at info@dcmnvl.com. However, for the shares held in demat mode, Members are requested to write to their respective DPs.

The voting results of the AGM along with the Scrutinizer's Report will be declared as per the statutory timelines and will also be posted on the website of the Company i.e.,

www.dcmnvl.com, stock exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com and on NSDL website at https://www.evoting.nsdl.com. For DCM Nouvelle Limited

Mohd Sagir

(Company Secretary)

Date: 02/08/2023 Place: New Delhi

JULLUNDUR MOTOR AGENCY (DELHI) LIMITED

Regd. Off: 458-1/16, Sohna Road, Opp. New Court, Gurugram-122001, Haryana, India

Ph. No.: 0124-3019210, 4233867-70

NOTICE OF THE 74th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Seventy Fourth (74th) Annual General Meeting "AGM") of the members of Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited will be held on Tuesday, 29th August, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), for which purpose the registered office of the Company situated at 458-1/16, Sohna Road, Opposite New Court, Gurugram- 122001, Haryana, NDIA, shall be deemed as the venue for the Meeting and the proceedings of AGM shall be deemed to have taken place thereat, to transact the Businesses, as set out in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). 4th Annual Report containing Notice of AGM, Financial Statements (Standalone & Consolidated), Reports of Auditors and Board's thereon, and other documents along with Instruction(s) for E-Voting and Joining of AGM through Video Conferencing have been sent only by electronic mode to those Members whose E-mail ID is registered with the Company/ Depositories as on 28th July, 2023. The above mentioned documents are also available on and can be downloaded from the Company's website i.e.

Manner of registering/updating e-mail address and bank account details for obtaining Notice of AGM, Annual Report and Dividend electronically:

The Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circular dated November 03, 2021, December 14, 2021 read with circular dated March 16, 2023, has made it mandatory for the shareholders holding securities in physical form to furnish PAN, KYC and Nomination details to the Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company. The shareholders holding shares

in physical form are requested to note that in case of failure to provide required documents and details as per aforesaid SEBI circular, all folios of such shareholders shall be frozen on or after October 01, 2023 by the RTA. In view of the above, Members holding shares in physical form, who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company are requested to register / update their email addresses by submitting following documents/ details to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited at T-34 2nd Floor. Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 110020:

Contact details including Postal address with PIN code (in case of

change of address), Mobile Number, E-mail address;

Specimen signature (using form ISR-2). Any cancellation or change in nomination shall be provided in Form

The shareholders can download the above mentioned forms from the 'Download' section available on the Company's website under Investor head and is also available on the website of the RTA at https://www.masserv.com/downloads.asp.

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register update their PAN, Nomination Details, Contact details (Address with PIN, Mobile number and Email address), Bank account details and Specimen signature with the relevant Depository Participant.

Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, 2015 that the Company has fixed Tuesday, 22nd August, 2023 as cut-off date for the purpose of determining entitlement of members for Final Dividend of INR 02/- (i.e. 100%) per equity share of INR 02/- each, fully paid-up, for the Financial Year 2022-23, if declared. Also, the Register of Member and Share Transfer Books of the Company shall remain close from Wednesday, 23rd August, 2023 to Tuesday, 29th August, 2023 (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of 74th Annual General Meeting.

E-voting: Notice is hereby given that in compliance with the provisions of Section 108 of the Act and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, 2015, the Company has offered e-voting facility to its members, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 22nd August, 2023, for transacting all the businesses / resolutions set forth in the Notice of AGM electronically:

e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting

e-voting and are attending the AGM through VC/OAVM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but

Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed o change it subsequently.

M/s. Vijay K. Singhal & Associates, Company Secretaries, (Shri Vijay K. Singhal, Proprietor), have been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the email sent with the Notice of the AGM and also available on the website of the Company i.e. www.imaindia.com. Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 22nd August, 2023 may generate the Login ID and password by following the procedure as provided n the Notice of the AGM.

Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at <u>www.evotingindia.com</u> under help section or contact at toll free number: 1800225533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com. Alternatively, they can contact to Mr. Deepanshu Rastogi, Assistant Manager, Mas Services Limited, RTA at <u>investor@masserv.com</u> or on telephone number: 011-26387281/82/83.

> Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited Ramkesh Pal

GUJARAT LEASE FINANCING LTD.

(CIN: L65990GJ1983PLC006345)

Regd. Office: Registered Office: 6th Floor, Hasubhai Chambers, Opp. Town Hall, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006 (Gujarat), India Phone: +91 79 2657 5722 / 2657 5180, Fax: +91 79 2657 5180

Website: www.gujaratleasefinancing.co.in, Email: glflho ahm@yahoo.co.in

NOTICE OF 40[™] ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

NOTICE is hereby given that 40th AGM of the Members of the Company will be held on Thursday, August 24, 2023 at 11:30 am IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars dated May 05, 2020, May 05, 2022 and December 28, 2022 (collectively referred as "the MCA Circulars").

In accordance with the MCA Circulars and SEBI circular dated January 05, 2023, Notice of the AGM alongwith Annual Report for Financial Year 2022-23, inter-alia, including the remote e-voting instructions, has been e-mailed to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / with the Depository Participants ("DP") on August 01, 2023. The same are also available on the websites of the Company: www.gujaratleasefinancing.co.in, the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and MCA Circulars, the Company is providing the e-voting facility through CDSL to the Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, August 17, 2023 to exercise their right to vote by using remote e-voting and e-voting during AGM on any or all of the businesses specified in the Notice of AGM. Detailed instructions for remote e-voting facility and e-voting during the AGM are forming part of the Notice of AGM at Note No. 22.

The remote e-voting period begins on Monday, August 21, 2023 at 9:00 am and shall end on Wednesday, August 23, 2023 at 5:00 pm. Remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not casted their votes on the businesses through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any persons who have acquired shares and become Member of the Company after sending of Notice of AGM electronically and holding shares as on the cut-off date may cast their votes by following the instructions of remote e-voting and e-voting during the AGM as mentioned in the Note No. 22 of the Notice of AGM.

In case the Members have not registered their email address and/or bank account details with the Company / DP may follow the process detailed below for registration:

Dematerialized Holding	Register/update the details in your demat account, as per the process advised by your DP.
Physical Holding	Register/Update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agents of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited. The Company has sent letters for furnishing the required details regarding PAN, KYC details and Nomination by holders of Physical Securities as per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL:

Login through	Helpdesk details
CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33.
NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write as email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.

By order of the Board For Gujarat Lease Financing Limited

Place: Ahmedabad Date : August 01, 2023

Welspun ENTERPRISES

Parag Dave Company Secretary

Rupees in lakhs

WELSPUN ENTERPRISES LIMITED

CIN: L45201GJ1994PLC023920 Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat - 370110. Corp. Office: Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marq, Lower Parel (West), Mumbai - 400013. **Website:** www.welspunenterprises.com **Email Id:** companysecretary_wel@welspun.com

Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the guarter ended 30 June 2023

	Nupees in laking						
Sr.	Particulars		Quarter ended				
No.	1 utiloului3	June 30 2023	March 31 2023	June 30 2022	March 31 2023		
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)		
Ш			(Refer note 2)	(Restated)			
1	Total income	75,004	91,646	71,549	2,90,164		
2	Net Profit for the period from continuing operations	· .	·	·			
Ш	(before tax and exceptional items)	12,650	12,632	3,351	25,844		
3	Exceptional items (net)		5,940		48,299		
4	Net Profit for the period from continuing operations		,		'		
Ш	before tax (after exceptional items)	12,650	18,572	3,351	74,143		
5	Net Profit for the period from continuing operations	·	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		
Ш	after tax	9,257	15,560	2,443	68,111		
Ш	(after exceptional items & after non-controlling interests)			, .			
6	Net Profit for the period from discontinuing						
Ш	operations after tax	(80)	(1,412)	2,399	4,164		
Ш	(after exceptional items & after non-controlling interests)		, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	'		
7	Net Profit for the period from continuing and						
Ш	discontinuing operations after tax and after						
Ш	exceptional items and after non-controlling interests	9,177	14,148	4,842	72,275		
8	Total Comprehensive Income for the period from	·	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
Ш	continuing and discontinuing operations	9,152	13,925	4,877	71,962		
Ш	(Comprising profit for the period (after tax) and	· .	·	·	·		
Ш	Other Comprehensive Income (after tax) and						
Ш	after non-controlling interests						
9	Paid-up equity share capital						
Ш	(Face Value Rs. 10/- each)	13,638	14,998	14,993	14,998		
10	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	2,20,603		
11	Networth	1,85,636	2,08,410	1,56,852	2,08,410		
12	Debt Equity Ratio	0.24	0.32	0.46	0.32		
13	Earnings per share (EPS) for continuing operations						
Ш	* Not Annualised						
Ш	(a) Basic EPS (Rs)	6.65 *	10.39 *	1.63 *	45.42		
Ш	(b) Diluted EPS (Rs)	6.60 *	10.36 *	1.63 *	45.31		
14	Earnings per share (EPS) for continuing and						
Ш	discontinuing operations						
Ш	* Not Annualised						
	(a) Basic EPS	6.59 *	9.45 *	3.24 *	48.19		
	(b) Diluted EPS	6.55 *	9.42 *	3.23 *	48.08		
15	Capital Redemption Reserve	1,175	NA	NA	NA		
	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA		
17	Debt Service Coverage Ratio #	0.37	0.63	1.97	0.83		
18	Interest Service Coverage Ratio #	5.74	4.46	2.40	3.18		
	# Ratios are based on continuing operations						

Notes:-The above is an extract of detailed format of quarterly ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchanges website www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on company's website www.welspunenterprises.com

Figures for the Quarter ended 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2023 and the published unaudited year to date figures upto

the 31 December 2022.

3	Additional information on standalone financial results	s is as follows	3 :-		
		_		Rup	ees in lakhs
Sr No.	Particulars	'	· .	Quarter ended June 30 2022	
		(Unaudited)	(Audited) (Refer note 2)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income	70,945	88,365	69,084	2,77,501
2	Net profit for the period				
	(before tax and exceptional items)	12,004	12,565	3,164	25,016
3	Net profit for the period before tax				
	(after exceptional items)	12,004	16,248	3,164	76,006
4	Net profit for the period after tax	8,964	13,762	2,498	71,312
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	8,939	13,546	2,533	71,006
		Na C	For Wels	pun Enterpri	ses Limited

Sd/-

Sandeep Garg **Managing Director** DIN 00036419 Place: Gurugram

Date: 01 August 2023 Chairperson appointed by Tribunal for the meetings of the Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Company

New Delhi

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 (₹ in Lakhs except EPS) Year to date Year ended 31 March 2023 Audited 696.07 3423.95

0.49

0.49

4.13

4.13

Español Français

日本語

Particulars 30 June 2023 31 March 2023 30 June 2022 30 June 2023 30 June 2022 Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Total income from 936.96 971.93 696.07 936.96 operations (net) Profit before tax 212.85 204.30 72.21 212.85 72.21 714.87 III Profit after tax 156.21 155.01 53.68 156.21 53.68 538.67 IV Paid up Equity Share 1375.06 1375.06 1375.06 1375.06 1375.06 1375.06 Capital (Face value of Rs 10/- each) V Reserves & Surplus 1865.07

LangTech: Technology हर भाषा में

FIDEL SOFTECH LIMITED

(Formerly known as Fidel Softech Private Limited)

CIN - U72200PN2004PLC020061

Unit No. 202, 2nd Floor, West Wing, Marisoft 3, Kalyani Nagar,

Vadgaon Sheri, Pune - 411014. Maharashtra.

Website - www.fidelsoftech.com Email: info@fidelsoftech.com

Pursuant to regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015

Quarter Ended

VI Earnings per equity share (not annualised) 1.14 1.14 1.19 0.49 (2) Diluted 1.14 1.19 0.49 1.14

ગુજરાતી

Fidel Softech

The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 1st August 2023.

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, and the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

3. Company is operating only in one segment, namely Language Technology Services and Consultancy Services As part of secondary reporting, revenue is attributed to geographical areas based on the location of the customers as per the details below: (₹ in Lakhs)

Year ended Quarter ended Quarter ended Quarter ended Year to date Year to date **Particulars** 30 June 2023 31 March 2023 30 June 2022 30 June 2023 30 June 2022 31 March 2023 29.64 28.12 29.64 247.27 Domestic Revenue 3,089.84 892.58 901.35 584.97 892.58 584.97 Export Revenue TOTAL 929.47 681.81 3,337.10 922.22 922.22 681.81

4. The previous year's figures have been regrouped/ reclassified, wherever necessary to conform to the current year

For and on behalf of the Board of Directors of Fidel Softech Limited

Prachi Kulkarni

Managing Director DIN: 03618459

Date: 1st August 2023 Place: Pune



[Pursuant to Section 230(3) of Companies Act, 2013 and Rules 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements, and Amalgamations) Rules, 2016]

> IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH CA (CAA) No./23/Chd/Hry/2023

IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013

IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF MAKESENSE TECHNOLOGIES LIMITED WITH PB FINTECH LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS

PB Fintech Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 having Corporate Identity Number: L51909HR2008PLC037998 and its registered office at Plot No. 119, Sector-44, Gurugram - 122 001, Haryana.

... Company/ Transferee Company NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE UNSECURED CREDITORS AND THE EQUITY

Notice is hereby given that in accordance with the Order dated 5" July 2023, passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench ("Tribunal") ("Tribunal Order"), has directed meetings to be held of the Unsecured Creditors and the Equity Shareholders of the Company, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed Scheme of Amalgamation of Makesense Technologies Limited ("Transferor Company") with PB Fintech Limited ("Company" or "Transferee Company") and their respective shareholders ("Scheme") under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

the Companies Act, 2013 ("Act"). In pursuance of the Tribunal Order and as directed therein, and in compliance with the applicable provisions of the Act and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), further notice is hereby given that meetings of the Unsecured Creditors and the Equity Shareholders of the Company will be held through video conferencing ("VC")/ other audio visual ("OAVM") means as under:

Sr. No.	Class of meetings	Date of meetings	Time of meetings
1.	Unsecured Creditors	Saturday, ^{and} September 2023	11:30 a.m. (IST)
2.	Equity Shareholders	Saturday, 2 rd September 2023	02:30 p.m. (IST)

In terms of the Tribunal Order, the individual notices of the aforesaid meetings together with the copy of the Scheme, statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 ("CAA Rules") along with all annexures have already been sent through electronic mode to: (a) those Unsecured Creditors (as on 30° June 2023) at their register email IDs as per records available with the transferee Company; and (b) those Equity Shareholders (as on 26th August 2023) whose e-mail IDs are registered with the LIPL, or Depository Participants or the Company.

The notices of the aforesaid meetings and the accompanying documents are also placed on the website of the Company viz. www.pbfintech.in, website of LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in, being the agency appointed by the Company to provide e-voting and other facilities for the aforesaid meetings and the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited ("BSE") viz. www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") viz. www.nseindia.com.

The Tribunal has appointed Dr. Surekha Thukral, Advocate and failing her Mrs. Krishna Anmol Singh, Advocate to be the Chairperson for the aforesaid meetings of the Company, including for any adjournment or adjournments thereof and Mr. Nikhil Sachdeva, Chartered Accountant to be the Scrutinizer for the aforesaid meetings of the Company. Since, the aforesaid meetings are being held through VC/ OAVM, physical attendance of the Unsecured Creditors and the Equity

and the Equity Shareholders of the Company will not be available for the respective meetings. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e., Saturday, 26" August 2023 only shall be entitled to exercise his/ her/ its voting rights on the resolution proposed in the notice and attend the aforesaid meeting of the Equity Shareholders. A person who is not an equity shareholder of the Company as on the cut-off date, should treat the notice for information purpose only.

Shareholders of the Company has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Unsecured Creditors

A person, whose name is recorded in the list of Unsecured Creditors maintained by the Company as on the cut-off date, i.e., Friday, 30" June 2023 only shall be entitled to exercise his/ her/ its voting rights on the resolution proposed in the notice and attend the aforesaid meeting of the Unsecured Creditors. A person who is not an unsecured creditor of the Company as on the cut-off date, should treat the notice for information purpose only.

The Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Company shall have the facility and option of voting on their respective resolutions for approval of the Scheme by casting their votes: (a) through e-voting system available at the respective meetings to be held virtually; or (b) by remote electronic voting ("remote e-voting").

The cut-off date for e-voting and time period for the remote e-voting of the aforesaid meetings is as under: **Equity Shareholders Meeting**

Saturday 26" August 2023 Cut off date for e-voting Tuesday 29" August 2023 at 09.00 a.m. (IST Remote e-voting start date and time Friday 1st September 2023 at 5.00 p.m. (IST) Remote e-voting end date and time **Unsecured Creditors Meeting** Friday 30th June 2023 Cut off date for e-voting

Tuesday 29th August 2023 at 09.00 a.m. (IST) Remote e-voting start date and time Friday 1" September 2023 at 5.00 p.m. (IST) Remote e-voting end date and time The facility of casting votes by an Unsecured Creditor and/ or Equity Shareholder using electronic means, i.e. (i) remote e-voting; and (ii) e-voting at the respective meetings is being provided by LIIPL. At the end of the remote e-voting period (as mentioned above), the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Company attending the respective meetings who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their vote at the

respective meetings. The Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Company are requested to carefully read all the notes The abovementioned Scheme, if approved by the Unsecured Creditors and Equity Shareholders at their respective meetings, will be subject to the subsequent sanction of the Tribunal and such other approvals, permissions and sanctions of regulatory or other authorities, as may be necessary.

proposed to be considered at the respective meetings, are requested to write to the Company at least 7 (seven) days before the date of the respective meetings through email on complianceofficer@pbfintech.in. Dr. Surekha Thukral

The Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Company seeking any information with regard to the Scheme or the matter

CIN: L35999HR1998PLC033943 Email ID: info@imaindia.com; Website: www.jmaindia.com;

www.imaindia.com, website of National Stock Exchange at www.nseindia.com and website of CDSL at https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp

Physical

E-mail, Mobile No. and PAN, using form ISR-1; 2. Nomination in Form No. SH-13 or submit declaration to 'Opt-out' in Form

Bank Account details including Bank name and branch, Bank account number, MICR Code and IFS code (using form ISR-1);

Book Closure and Cut-off Date: NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration)

(A) Remote e-voting: The remote e-voting period commences on Thursday, 24th August, 2023 (09:00 am) and ends on Monday, 28th August, 2023 (05:00 pm). No

module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. E-voting at AGM: The facility for voting through e-voting shall also be made available at the AGM to those members who have not cast their votes by remote

shall not be entitled to cast their vote again.

case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked

For and on behalf of

Company Secretary Place: Gurugram Date: 01st August, 2023 (M. No.: A40120)

financialexp.epapr.in

Place : Mumbai

Date : August 1, 2023

मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार हैः					
ऋणधारकों गारन्टरों का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसम्पति (अचल सम्पत्ति) का विवरण			
श्री पूनम छेत्री, श्री साहिल छेत्री, (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10010958)	31 जुलाई, 2023, रु. 8,90,395/- (रु. आठ लाख नब्बे हजार तीन सौ पंचानवे मात्र)	सम्पति का सभी भाग तथा हिस्सा: निर्मित ऊपरी तल (बैक साइड), छता टैरेस के अधिकार के बिना, सम्पत्ति सं. 54,/नया नं. 54-ए, तथा 54-बी) पर निर्मित, आनुपातिक कार्पेट एरिया माप 405 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया माप 450 वर्ग फीट, कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग यार्ड्स में खसरा नं. 65/9 में शामिल जो ग्राम हस्तसाल, दिल्ली, मोहन गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी में ब्लॉक के-1, एक्स्टेंशन, जैलदार एन्क्लेव, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 में स्थित है, स्टिल्ट पार्किंग में भूतल में शाफ्ट तथा टू व्हीलर पार्किंग सहित प्रवेश पैसेज, सीढ़ियों के उपयोग के सामूहिक अधिकार सहित।			
यदि उक्त ऋणधारक	उपरोक्त रूप में आईआई	एफएल एचएफएल को भगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल			

ऋणधारकों की जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कपया **शाखा कार्यालय**: आईआईएफएल एचएफएल, प्लॉट नं. 30/30ई, ऊपरी भतल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ रोड, जगआर शो रूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली में प्राधिकत अधिकारी अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालय**: आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें। स्थानः दिल्ली, तिथिः 02.08.2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

यू.पी. होटल्स लि.

CIN:L55101DL1961PLC017307 पंजी. कार्यालयः 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 टेली: 011-23722596-8,

ईमेल:clarkssuryakiran@yahoo.co.in, वेब: www.hotelclearks.com

शयरधारका क ।लय सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) खाता में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा. ऑडिट. अंतरण तथा रिफंड) संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 6 के साथ पठित धारा 124(6) के प्रावधानों के अनपालन में कम्पनी की ऐसी इक्विटी शेयरों को कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना वांछित है जिसके लिये लाभांश की अधिकारिता (वित्त वर्ष 2013-14 के संदर्भ में)दावा-रहित लगातार सात वर्षों या अधिक से दावा-रहित रही है। आईईपीएफ नियमों में अन्य विषयों में अप्रदत्त अथवा दावा–रहित लाभांश को आईईपीएफ में अंतरण तथा ऐसी शेयरों को आईईपीएफ

नियमों के प्रावधानों के अनुसार वैयक्तिक सुचना जिसमें अन्य बातों के अलावे आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित की जाने वाली शेयरों के विवरण दिये गये हैं, कम्पनी के पास पंजीकृत उनके निवीनतम उपलब्ध पते पर संबंधित शेयरधारकों को भेज दी गई है। शेयरधारकों से आग्रह है कि आईईपीएफ में अंतरण के लिये नियत शेयरों के विवरणों की जाँच के लिये कम्पनी की वेबसाईट www.hotelclarks.com के निवेशक संबंध पेज को देख लें।

खाता में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभांश अप्रदत्त अथवा

पुनः सभी शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि वित वर्ष 2013-14 से आगे के अप्रदत्त लाभांश का दावा करने के अनुरोध के साथ शेयरों के अंतरण की तय तिथि अर्थात् 4.11.2023 से कम से कम एक सप्ताह पूर्व कम्पनी/रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के पास आवेदन करें ताकि शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित न की जाये अन्यथा आगे कोई भी सूचना दिये बिना कम्पनी आईईपीएफ में शेयरों को अंतरित करने के लिये बाध्य होगी।

शेयरधारक यह ध्यान रखें कि यदि कोई हो, ऐसी शेयरों पर उपचियत सभी लाभों सहित आईईपीएफ गं अंतरित दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों दोनों को नियमा में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर वे उसे वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि आईईपीएफ में अंतरित की गई दावा-रिहत लाभांश राशि तथा इक्विटी शेयरों के संदर्भ में कम्पनी के प्रति कोई दावे नहीं की जा सकेगी। यदि इस विषय पर शेयरधारकों का कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट से स्काईलाइन फाइनांशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, युनिटः यु.पी. होटल्स लिमिटेड, डी-153/ए, 1ल तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110020, फोनः 011-64732687, ईमेल admin@skylinerta.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। यह सूचना स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.hotelclarks.com पर भी उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 01.08.2023

कत्ते. य.पी. होटल्स लिमिटेड

(प्रकाश चन्द्र प्रुस्ती) कम्पनी सचिव

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ पठित "प्रपन्न सं. आईएनसी-26" सामान्य सूचना कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष

> निम्नलिखित के मामले में सिंडिकेट बैंक ---वित्तीय लेनदार

> हिम अलॉयज एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड --कॉर्पोरेट देनदार और निम्नलिखित के मामले में:

मैसर्स हिम अलॉयज एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के संकल्प पेशेवर आईबीबीआई रजि. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00073/2017-18/10583 ...आवेदक प्रधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन

> श्री अशोक राजा एवं अन्य प्रतिवादियों

उपस्थिति की सूचना सूचना एवं प्रसारण संहिता, 2016 की 60(5) के साथ पठित धारा 19(2) के तहत सेवा में.

जबिक, श्री संदीप गोयल, संकल्प पेशेवर, हिम अलॉयज एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ने इन्सॉल्वेंसी

एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 19(2) के तहत आई.ए.संख्या 1426 / 2023 दायर किया है और

जबिक, चंडीगढ में माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ बेंच ने आपको उपरोक्त नाम पर नोटिस जारी किया

था। दिनांक 04.07.2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी ने अधोहस्ताक्षरी को प्रतिस्थापित सेवा

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त मामला अब 30.08.2023 को चंडीगढ़ में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून

न्यायाधिकरण, चंडीगढ पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। आप या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने

ध्यान दें कि, उल्लिखित दिन आपकी उपस्थिति के अभाव में, आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, दानी कॉर्पोरेट पार्क,

158, सी.एस.टी. रोड, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई —400098

मेसर्स फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी (नीचें दी गई तालिका में वर्णित संबंधित ट्रस्टों

के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा

13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत निम्न विवरणानसार, उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों

को मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संबंधित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों से नोटिस की

प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि चकाने के लिए कहा गया है। उक्त

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, जमानतदारों राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्दवारा कर्जदारों,

सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने

उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का

उपयोग कर इसके साथ उल्लिखित तिथियों में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ताओं

सह—उधारकर्ताओं, विशेष रूप से गारंटर और आम तौर पर जनता को संपत्तियों के साथ सौदा नहीं करने के

लिए आगाह किया जाता है और संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन मेसर्स फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

(नीचे तालिका में वर्णित संबंधित ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना) संबंधित तिथियों से भविष्य के ब्याज,

लागत और शल्क के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों

गिरवी रखी गई संपत्तियों, ट्रस्ट का नाम, देय बकाया, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके

ध्यारकर्ता, सह—उधारकर्ता का नाम और | प्रतिभृतियों का | 1. ट्रस्ट का नाम, 2. डिमांड नोटिस की तारीख

पलेट नंबर पी04-0103, टावर पी04,पी04 ब्लॉक में 1)

पहली मंजिल पर,क्रिसेंट पार्क ग्रीन पार्क-II, "द पेटीओल्स" सारे ट्रस्ट वित्तीय वर्ष

क्रिसेंट पार्क टाउनिशप, गांव वजीरपुर और मेवका में, सेक्टर-92, 18-1 स्कीम ई

गुड़गांव (हरियाणा),क्षेत्रफल 2226 वर्ग फुट / 206.80 वर्ग मीटर वाली सम्पत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश। संपत्ति नंबर 2: फ्लैट नंबर

पी 03-0203,टावर पी 04,पी 04 ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर, क्रिसेंट 3) 31.07.2023

वजीरपुर और मेवका में, सेक्टर–92, गुड़गांव (हरियाणा), क्षेत्रफल 8,72,26,925 /

टॉवर में दूसरी मंजिल पर, जी1 ब्लॉक, "द ग्रेंड", सारे क्रिसेंट पार्क लाख छब्बीस

टाउनिशप, गांव वजीरपुर और मेवका, सेक्टर—92, गुड़गांव (हरियाणा), हजार नौ सौ

टावर पी 04, पी 04 ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर, क्रिसेंट पार्क ग्रीन 23.08.2019 तक

और मेवका, सेक्टर−92, गुड़गांव (हरियाणा), माप 2226 वर्ग∥ देय और पूर्ण

मंजिल पर, जी2 ब्लॉक, "द ग्रेंड" सारे क्रिसेंट पार्क टाउनिशप, गांव शुल्क के साथ

वजीरपुर में और मेवका, सेक्टर—92, गुड़गांव, हरियाणा, क्षेत्रफल 2280 24.08.2019 से

अधिकृत अधिकारीः कृते फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

(नीचे तालिका में वर्णित संबंधित ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना)

डीसीएम नुवेल लिमिटेड

सीआईएन: L17309DL2016PLC307204

पार्क ग्रीन पार्क-II, "द पेटीओल्स सारे क्रिसेंट पार्क टाउनशिप, गांव $^{-}$ 4) रु.

2226 वर्ग फुट / 206.80 वर्ग मीटर वाली सम्पत्ति का वह समस्त (रुपये

पार्क—II, द पेटिओल्स सारे क्रिसेंट पार्क टाउनशिप, गांव वजीरपुर बकाया

फुट / 206.80 वर्ग मीटर वाली सम्पत्ति का वह समस्त टुकड़ा और भुगतान

अंश, संपत्ति संख्या 5: फ्लैट नंबर जी02-0204 , ग्रैंड टॉवर में दूसरी लागत

वर्ग फीट / 211.82 वर्ग मीटर वाली सम्पत्ति का वह समस्त टुकड़ा

और अंश, संपत्ति संख्या ६: फ्लैट संख्या जी02–2004, ग्रैंड टॉवर के

19वीं मंजिल पर, जी2 ब्लॉक, "द ग्रैंड", सारे क्रिसेंट पार्क टाउनशिप,

2280 वर्ग फुट/211.82 वर्ग मीटर वाली सम्पत्ति का वह समस्त

टकडा और अंश। संपत्ति नंबर 7: फ्लैट नंबर जी01–0102, ग्रैंड टॉवर में पहली मंजिल पर, जी1 ब्लॉक, "द ग्रैंड" सारे क्रिसेंट पार्क

टाउनशिप, गांव वजीरपुर और मेवका, सेक्टर–92, गुड़गांव में

(हरियाणा),माप 2280 वर्ग फुट/211.82 वर्गमीटर वाली सम्पत्ति का

बंधककर्ता का नामः मैसर्स सन एग्रीफ्रेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री मनीष सती (+919855078208), श्री पंकज टी. राय (+917768003567) से संपर्क करें।

पंजीकृत कार्यालयः ४०७, विक्रांत टॉवर, ०४, राजेंद्र प्लेस,

नई दिल्ली-110 0 08 | दूरभाष: 0 11-43678490 ई—मेल :info@dcmnvl.com | वेबसाइट :www.dcmnvl.com 07 वीं वार्षिक आम बैठक और ई—वोटिंग की सूचना नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 07वीं वार्षिक आम. बैठक ("एजीएम / बैठक") । गुरुवार, 24 अगस्त, 2023 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमीं ("ओएबीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि बैठक बुलाने की सूचना ("नोटिस") में निर्वारित

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय **("एमसीए")** द्वारा जारी 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022

के अनुसरण में इस संबंध में एमसीए द्वारा जारी अन्य परिपत्रों (सामृहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपन्न संख्या 05 जनवरी, 2023 को सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 को पढ़ा गया । इस संबंध में सेबी

द्वारा जारी अन्य परिपत्रों (सामृहिक रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ, कंपनियों को 30

सितंबर, 2023 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के

माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। तदनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक

उक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022—23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के

साथ केवल अपने सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोंनिक मोंड के माध्यम से नोटिस भेजा है, जिनकी ईमेल आईडी

कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक

माननीय सदस्य गण ध्यान दें कि नोटिस सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.dcmnvl.com में

वह समस्त टकडा और अंश।

गांव वजीरपुर और मेवका, सेक्टर–92, गुड़गांव में (हरियाणा), माप हैं।

क्षेत्रफल 2280 वर्ग फूट / 211.82 वर्ग मीटर वाली सम्पत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश, संपत्ति संख्या 4: फ्लैट नंबर पी 04–0203

3. कब्जे की तारीख 4. रुपये में देय राशि

ब्याज शामिल

हिम अलॉयज एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए संकल्प पेशेवर

आईबीबीआई रजि. सं : IBBI/IPA-003/IP-N00073/2017-18/10583

पताः ४१०, प्रताप भवन, ५, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण श्री अशोक राजा से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह 42 / 72, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर

ईमेलः ssraja9@himgroup.co.in

की जाएगी और निर्णय किया जाएगा।

दिनांकः 02/08/2023

स्थानः नई दिल्ली

के माध्यम से आपको सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है।

अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

तहत दावा की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि

पताः २९ए, पॉकेट 1

सेक्टर 7 द्वारका, नई

दिल्ली-110075 इसके

अलावा पताः मैसर्स सन

एग्रीफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड

सी-4. तीसरी मंजिल,

अपार्टमेंट. प्लॉट नंबर 22,

दिल्ली 110075 और श्री

रितेश सिंह पुंडीर, पताः

601-ए. 6वीं मंजिल,

दिल्ली राज्य सहकारी,ग्रुप

नई दिल्ली-110075.

ऋण खाता संख्याः

401CSH35301520, व

401CSH35301581

पैंतालीस रुपये मात्र),

दिनांकः 2.08.2023

000

NOUVELLE

व्यवसायों का लेन—देन किया जा सके ।

प्रेषण 01 अगस्त, 2023 को पूरा हो गया है ।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है ।

सेक्टर—10,द्वारका,

श्री संदीप गोयल.

एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायर ईमेलः ashokraja@himgroup.co.in, दर्ज कर सकता है या एक शपथ पंत्र जिसमें उनके हिर bhishekraja@hotmail.com का प्रकार और जसके विरोध का कारण जिल्लीयन ब श्री शांति स्वरूप राजा 42 / 72, पंजाबी बाग, नई दिल्ली—110026

के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीत वीं–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदर भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पर पंजीकत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व क सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनवे उपरोक्त रजिस्टीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा कृत्ते यु.डी. फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में

यू.डी. फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

(CIN: U15119DL2006PTC152534)

जेसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 8582 एल.आई.जी. फ्लैटर

हरतल विलेज उत्तम नगर, नई दिल्ली-110064 में खित है

श्रम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपर्न

प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपर्न

फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का

जिस्ट्रीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानांतरित

करने के लिए दिनांक **सोमवार 31 जुलाई, 2023**

को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संघम ज्ञापन मे

संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं।

दिनांक : 02.08.2023 संजय कमा

डीआईएन : 02157125 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 8592 एल.आई.जी. फ्लैटस. हस्तल विलेज, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110054

Criminai Courts, Luciniana In The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana

CNR NO: PBLD03-004755-2020 PESHI: 02-09-2023 publication notice for proclamation under section

82 CR.PC Complaint R/w sec- 138 of N.I act

Pallavi Biju Nair Notice To: Pallavi Biju Nair R/o H. No 1298, Kranti Chowk,

Kotak Mahindra Bank

Talavali, Naka, Ghansoli, Navi Mumbai Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the

accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC Is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 02-09-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_r otice&district=Ludhiana JMIC Ludhiana

TATA

कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क,

गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मम्बई-40013 शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2. एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति

हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह–कर्जदारों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदार) को एतद्वारा सचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गय है. कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कल राशि की वसली हेत ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसे है'' तथा ''जो भी है वहीं है'' के आधार पर 18.08.2023 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मृल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 18.08.2023 को 2 बजे अप. की जायेगी। ई–नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट वाला मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास शाखा पर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर, भाग-2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर 17.08.2023 को

प्रतिभृत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है स्थिति'' में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी

Su.	NSK	दाायत्वधारा(या)/सह-	भाग सूचना क अनुसार	आरक्षत	जमा धराहर	कब्ज का
सं.	खाता सं.	कर्जदार(रों)⁄ विधिक	र्जदार(रों)⁄ विधिक बकाया राशि		राशि	प्रकार
	तथा	उत्तराधिकारी(यों) ⁄ विधिक				
	शाखा	प्रतिनिधि(यों)⁄जमानती(यों)				
		के नाम				
1.	102 091 82	,	रु. 31,98,792/- (रुपये इकतीस लाख अट्ठानबे हजार सात सौ बानबे मात्र) 02-06-2022	रु. 17,00,000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र)	रु. 1,70,000/- (रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: आवासीय भवन सं. 17सी (पुराना सं. 17)के निर्मित प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) का सम्पूर्ण भाग, प्रथम तल, माप 40 वर्ग गज यानी 33.44 वर्ग मीटर (कवर्ड एरिया), रेक्ट. नंबर 43, किला नंबर 25, गांव ख़ुरेजी, आबादी कृष्ण कुंज या कृष्ण कुंज कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, एरिया शाहदरा, दिल्ली - 110092 में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं :- पूर्व :- गली 15' चौड़ी, पश्चिम :- संपत्ति संख्या 17बी, उत्तर :- संपत्ति संख्या 17ए, दक्षिण : - संपत्ति संख्या 18

2	10166	श्री रोशन	रु. 32,89,607/- (रुपये बत्तीस	₹. 49,90,607/-	₹. 4,99,000/-	भौतिक
-	667	कुमार मंडल,	लाख नवासी हजार	(रुपये उनचास	(रुपये चार लाख	
Ш		श्री राजीव कुमार	छः सौ सात मात्र) 	लाख नब्बे हजार	निन्यानबे हजार मात्र)	
Ш			28-08-2019	छ- सौ सात मात्र)		
					4 -24 -44 -22	70-

अचल सम्पत्ति का विवरण: आवासीय अपार्टमेंट∕यूनिट फ्लैट नंबर बी−1707 का समस्त भाग, 17वीं मंजिल, बिल्डिंग/प्रोजेक्ट ओएसिस वेनेशिया हाइट्स एचआरए 12-ए, साइट-सी, सुरजपुर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.-201306 पर स्थित, क्षेत्रफल माप 1290 वर्ग फीट, आवंटन पत्र में उल्लिखित सामान्य सुविधाओं के साथ

3.	966	श्री राजीव अग्रवाल,	रु. 64,85,450/−	₹.	₹. 6,53,400/-	भौतिक
***	651	श्री भगवान दास अग्रवाल,	(रुपये चौंसठ लाख पिचासी	65,34,000/-	(रुपये छ- लाख	
П	7	श्रीमती उषा अग्रवाल, श्री रमाशंकर अग्रवाल,	हजार चार सौ पचास मात्र)	(रुपये पैंसठ लाख	तिरेपन हजार चार	
П		मैसर्स रमाशंकर अग्रवाल एण्ड कम्पनी,		चौंतीस हजार मात्र)	सौ मात्र)	
П		इसके निदेशकों/साझेदारों के माध्यम से	11-12-2019			
		I.I.	L. J.			

अचल संपत्ति का विवरणः मद संख्या 1- समस्त वाणिज्यिक संपत्ति/कार्यालय संख्या ९, ऊपरी भूतल/बेसमेंट, क्षेत्रफल 275.83 वर्ग फीट यानी 25.62 वर्ग मीटर। माप पूर्व से पश्चिम 10.6 फीट, उत्तर से दक्षिण 26.3 फीट, 300 वर्ग फीट यानी 27.86 वर्ग मीटर का सुपर बिल्ड अप एरिया, वाणिज्यिक प्लॉट नंबर 2 विश्वकर्मा प्लाजा, सेक्टर 16-बी, सिकंदरा योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरम, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा, उ.प्र. -282007 में स्थित है बिक्री विलेख में उल्लिखित सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएँ: उत्तरः निकास और सामान्य मार्ग; पूर्वः दुकान की दीवार/यूनिट संख्या 8; पश्चिमः दुकान की दीवार/युनिट संख्या 10; दक्षिणः विक्रेता की संपत्तिः

मद संख्या 2- समस्त वाणिज्यिक संपत्ति/कार्यालय संख्या 8, ऊपरी भूतल/बेसमेंट, क्षेत्रफल 275.83 वर्ग फीट यानी 25.62 वर्ग मीटर, माप पूर्व से पश्चिम 10.0 फीट, उत्तर से दक्षिण 26.3 फीट, 300 वर्ग फीट यानी 27.86 वर्ग मीटर का सुपर बिल्ड अप एरिया, वाणिज्यिक प्लॉट नंबर 2, विश्वकर्मा प्लाजा, सेक्टर 16-बी सिकंदरा योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरम, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा, उ.प्र. -282007 में स्थित, बिक्री विलेख में लिखी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं : उत्तरः निकास और सामान्य मार्ग; पूर्वः दुकान की दीवार/यूनिट नंबर ७; पश्चिमः दुकान की दीवार/यूनिट संख्या ७; दक्षिणः विक्रेता की संपत्ति;

बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को एतद्वारा इस सचना है प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित कुल बकाया भुगतान करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर अचल सम्पर्ग की बिक्री अनुसूची के अनुसार कर दी जायेगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण

जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी।

नोट : ई-नीलामी बिक्री पोर्टल www.bankauctions.in/ के माध्यम से 18.08.2023 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार पर आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिभृत लेनदार के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मुल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5 उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. कारणों को अभिलिखित करने हेतु, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थिगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। ७. सम्पत्ति का निरीक्षण 08.08.2023 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8 सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चुक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मल्य के अन्य ज्ञात विवरणः शन्य। इच्छक संविदाकार को सम्पत्ति कर, बिजली आदि के विधिक बकायों सहित सम्पत्ति पर ऋणभारे से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए. 6ठा तल, मैत्रीवनम कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेत, हैदराबाद-500038 से इसके समन्वयक श्री अरिजित कुमार दास, 8142000725, 8142000066, 8142000062 ई-मेल : arijit@bankauctions.in तथा ई-मेल : info@bankauctions.in अथवा मनीष बंसल से ई-मेल आईडी : Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत प्राधिकारी मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया

acapital.com/property-disposal.html भी देखें। कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

अपनी पूछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस देना होगा और यह उच्चतम संविदाकार द्वारा अद

किया जायेगा। उच्चतम संविदाकार द्वारा भुगतान स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन पर जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी

14. उपर्युक्त विवरण कृपया लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट https://bit.ly /43VfPfz में प्रावधानित लिंक देखें। 15. कृपया लिंक https://www.tat-

स्थान : दिल्ली एवं उ.प्र. तिथि : 02.08.2023

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एनसीएलटी नियम, 2016 के नियम 38 के तहत प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से नोटिस, आईए नं. 1426/2023 आईएन सीपी (आईबी) नं. 146/सीएचडी/एचपी/2019

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सैक्टर 3 नोएडा उ.प्र. 201301

सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस

एतदुद्वारा सचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार द्वारा बेक से प्राप्त की गई ऋण सविधाए की प्रधान राशि और ब्याज की पुनः अदायगी म चुक की है तथा कथित सुविधाओं को नीचे वर्णित प्रत्येक खाते के अंतर्गत नॉन-परफॉर्मिंग असैट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनः निर्माण तथा प्रतिभति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कर्जदार/गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए थे, तथापि नोटिस अवितरित वापिस आ गए है और प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास का कारण है कि कर्जदार/गारंटर नोटिस की सेवाओं से बच रहे है, इसलिए उन्हें इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक सुचना के माध्यम से एतदुद्वारा सुचित किया जाता है।

शाखा और कर्जदार ∕गारंटर के नाम	प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	एनपीए की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
शाखाः अजमेर ा. मनोज जैन पुत्र तारा चंद जैन, गली नंबर	आवासीय संपत्ति, खसरा नंबर 1332 का हिस्सा, 206.83 वर्ग गज स्थित राजस्व गांव	26.12.2022	10.01.2022	18.12.2022 का दय ह
3, शक्ति नगर, आम का तालाब, अजमेर, राजस्थान–305001, पताः 546/21, सुमन भवन, नवाब का बेड़ा, अजमेर, राजस्थान–305001, 2	अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः अन्य का मकान	, पश्चिमः अन्य का म	कान, उत्तरः अन्य	अनुबंधाय दर पर ब्याज व अन्य प्रभार।
अनिता जैन पत्नी प्रेम चंद जैन गली नंबर 3, शक्ति				

305001, पता भीः 546/21, सुमन भवन, नवाब का बेड़ा, अजमेर, राजस्थान-305001, पता भीः 1478, हेंडालम वली, गली, शांतिनगर, वार्ड नंबर 18. अजमेर. राजस्थान। आवास ऋण (खाता संख्या 222176100000033)

उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की सलाह दी जाती है जिसमें असप होने पर नोटिस की तिथि से 60 दिन बाद वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कर्जदारों/गारंटरों को किसी तरीके से, जो कुछ भी हो, के माध्यम से बिना बैक की सहमति के बिना उपरोक्त वर्णित प्रतिभृतित परिसंपत्तियों के साथ लेन देन करने से एतद्द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह सचना बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है और अधिनियम तथा/या अन्य प्रभावी कानून के अधीन है।

दिनांक: 01.08.2023 स्थानः अजमेर (राजस्थान)

INDOSTAR

...(प्रतिवादी संख्या 1)

...(प्रतिवादी संख्या 2

कब्जा

सूचना

INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 505, 5वां तल, स्कंघ 2/ई, कॉर्पोरेट एवेन्यू, अंधेरी—घाटकोपर

लिंक रोड, चकाला, मुंबई, मुंबई सिटी, महाराष्ट्र - 400093, भारत, ईमेल : contact@indostarcapital.com सीआईएन नंबर :- L65100MH2009PLC268160, संपर्क नं.: श्री सुप्रीत सिंह - 9873018111 परिशिष्ट-IV-ए नियम 8(6) देखें ख्अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना,

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सचना, सरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतक के साथ पठित। इसके द्वारा सचना दी गई है सामान्य रूप से जनता के लिए और विशेष रूप से उधारकर्ताओं के लिए, जो वित्तीय प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद "सुरक्षित लेनदार" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए संपत्ति और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन, हमारी बिक्री और विपणन और ई–नीलामी सेवा भागीदार, मेसर्स इन्वेंट ऑन के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड (इन्वेंट ऑन) यानी https://auctions.inventon.in पर अचल संपत्ति की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा, जैसा कि यहां बताया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। अधिनियम, सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में। उक्त संपत्ति ''जैसी है जहां है आधार'', ''जैसी है जो है आधार'', ''वहां जो कुछ भी है आधार'' और ''बिना संसाधन आधार'' पर भौतिक कब्जे में है, जिनका विवरण यहां दिया गया है

उधारकर्ता(ओं) का विवरण LSDEL02918-190002739 शाखा : अहमदाबाद उधारकर्ता : 1. मैसर्स स्पार्कलिंग स्प्रिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट सह—उधारकर्ता : 2. श्री प्रीतपाल सिंह 3. श्री कुलवंत सिंह होरा 4. श्रीमती तरणजीत कौर 5. मैसर्स एवरशाइन हाउसकीपिंग सर्विसेज	13(2) मांग सूचना की तिथि एवं राशि दिनांक:— 24 जून 2022 रु. 3,94,57,530 / — (रुपये तीन करोड़ चौरानबे लाख सत्तावन हजार पांच सौ तीस मात्र) भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज एवं शुल्कों के साथ	दारापुर दिल्ली राज्य दिल्ली कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित है जिसे सुदर्शन पार्क एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। जो नई दिल्ली	₹. 4,24,22,713/-	ई-नीलामी की तिथि एवं समय 09.09.2023 समय : प्रातः 10.30 बजे से मध्या. 11.30 बजे तक 5 मिनटों के असीमित विस्तार के साथ
	: 1) बिकी के विस्तृत नियमों	और भर्तों के लिए कपया हमारे बिकी और विपण	न और ई—नीलामी से	ग पटाना की वेबसाइट

https://www.indostarcapital.com/ और प्रतिभृत ऋणदाताओं की वेबसाइट https://auctions.invento.in पर दिए गए लिंक को देखें। 2) इसे हमारे पोर्टल पर लिंक https://www.indostarcapital.com/Auction-Terms-and-Conditions के तहत प्रकाशित किया गया है। 3) संपत्ति की किसी भी पूछताछ, जानकारी और निरीक्षण, सहायता, ई-नीलामी प्रक्रिया और इस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदातागण हमारे बिक्री और विपणन के ग्राहक सेवा वितरण (सीएसडी) विभाग और ई—नीलामी सेवा भागीदार मैसर्स इन्वेंटन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से दूरभाष नंबरः +91 9833478748 / 9029086321 और ई–मेल आईडीः care@inventon.net या manoj.das@inventon.net या प्राधिकृत अधिकारी, श्री सुप्रीत सिंह से - 9873018111 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : दिल्ली दिनांक : 02-08-2023

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

(ईएआरसी-ट्रस्ट-एससी-477 के ट्रस्टी)

ई-नीलामी बिक्री सुचना

ईडलवीज एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. CIN: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेन्टल एवं पंजी. कार्यालय: ईडलवीज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई 400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(5) एवं (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (एसाइनर) की वित्तीय सुविधाओं को नीचे कॉलम में स्पष्ट रूप से वर्णित ईएआरसी-ट्रस्ट-एससी-477 के टस्टी की हैसियत में कार्यरत ईडलवीज एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (ईएआरसी) को सौंप दिया गया है। उक्त एसाइन्मेन्ट के उपरांत ईएआरसी ने एसाइनर का दायित्व ग्रहण किया तथा प्रतिभृत क्रेडीटर के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। कि, प्रतिभृत क्रेडीटर की हैसियत से ईएआरसी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत नीचे वर्णित अचल प्रतिभत परिसम्पत्तियों का कब्जा कर लिया था।

एतदद्वारा सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारक, सह-ऋणधारक, कानुनी उत्तराधिकारियों तथा गारंटरों को 30 दिनों की सुचना दी जाती है कि प्रतिभृत क्रेडीटर के पक्ष में गिरवी नीचे वर्णित अचल प्रतिभृत परिसम्पत्ति जिसका प्रतिभृत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की ऋणधारक तथा गारंटर से ईएआरसी के नीचे वर्णित बकाये राशि के साथ आगे के ब्याज तथा ईएआरसी द्वारा प्राप्त किसी राशि के लिये कटौती की गई अन्य खर्चे/लागतों की वसली के लिये ''जैसा

है जहां है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार'' पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मृल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का सम्पत्ति के लिये नीचे विवरण दिया गया है। एतदृद्वारा पूर्व की नीलामी सूचना को रिकॉल/वापस ली जाती है तथा इस सचना पर विचार किया जायेगा। ई-नीलामी पर रखी गई प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण

क्रम ऋण खाता सं. ऋणधारक⁄ | ट्रस्ट का नाम | बैंक एवं शाखा का | 31.7.2023 |

सं.		सह-ऋणधारक		नाम, बैंक खाता एवं	को कुल	मूल्य	भुगतान (ईएमडी)	तिथि एवं	प्रकार
	कोड सं.	का नाम		आईएफएससी कोड	बकाया	(आईएनआर में)	(आईएनआर में)	समय	
1.	25500001	तपन विश्वास	ईएआरसी ट्रस्ट-एससी-	2114 111 2114 111 1111	₹.	₹.	₹.	6.9.2023	भौतिक
ı	408	तथा	477– पीरामल कैपिटल	नरीमन प्वाइन्ट,	5922967.40/-	41,00,000/-	4,10,000/-	को 2.30	
ı		माधुरी विश्वास	एंड हाउसिंग फाइनांस	[000405135291)				अप. में	
ı			लिमिटेड (एसाइनर)	आईएफएससीः					
Ι.				ICIC0000004					
H-6	प्रजी समाचिका वि	ने ने जार में जनगार जॉर में	रङ्काचेर-४२ ट्याग वर	। क्रांटर सार्च १०/	१४ १७/२४ महो २६ महो	00/4/1 4/2 5 T	। स्त्री मं ६ स्यालम	ग्रोट हिल	गली उंड
	गिरवी सम्पत्ति का विवरण : प्लॉट नं. डब्ल्यूजेड-43, दूसरा तल, फ्रान्ट साइड, ख.नं. 89/16, 17/24 एवं 25 एवं 90/4/1, 4/2, 5 गली नं. 5, दयालसर रोड, बिल. गली नं. 5,								
दयालसर रोड, ग्राम हस्तसाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली, दिल्ली−110059									

	नीलामी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी						
1.	सभी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ऊपर वर्णित ट्रस्ट के पक्ष में देय मुम्बई में भुगतान योग्य रूप में तैयार की जाएगी।						
	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि से 1 दिन पूर्व तक प्राप्त की जाएगी					
	बोली जमा करने का स्थान	रिटेल सेन्ट्रल कार्यालय, मुम्बई में (नीचे वर्णित)					
4.	नीलामी का स्थान (नीलामी के लिये वेबसाइट)	ई–नीलामी (https://auction.edelweissarc.in)					
	सम्पर्क नं.	1800266540					
6.	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व अनुमित के अनुसार					
f	दिन्ती के दिएसर रिपाएँ एवं करों के दिनों कामा की अनुमार्थ अर्थाद https://evetica.edelweiseane.in में की पूर्व दिन्त केलें।						

स्थानः दिल्ली तिथि: 31.07.2023

कृते, ईडलवीज एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

♠ Edelweiss

हिंदुजा हाउसिंग फाईमेंस लिमिटेड कॉपेरेट कार्यालयः नं. 167-169, ब्रितीय तल, अना सर्लाई, सैदापेट, चेन्नई-600015 शाखा कार्यालयः 418, चतुर्य तल, पर्ल ओमेक्स टॉवर-2, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा दिल्ली 110034

सम्पर्क नं. 8826934787 प्राधिकृत अधिकारीः हर्ष तिहारिया, ईमेलः harshtiharia.g@hindujahousingfinance.com नीलामी सह बिक्री हेत् सार्वजनिक सूचना

एतद्दवारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है। कि हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लिया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफे में अचल संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जिसे "जैसा है" "जहां है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं:--

नीलामी की तिथि एवं समयः 05.09.2023 को पूर्वाह्व 11.00 बजे से अर्पा. 14.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) 'का नाम/	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल सम्पत्तियां का विवरण	आरक्षित मूल्य (आरपी जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आरपी का 10 प्रतिशत
1	(ऋण खाता नं. DL/MTG/MTNG/A000000085) 1. श्री कमल बजाज, जी.4 / 19, सेक्टर 16, रोहिणी उत्तर—पश्चिम दिल्ली, मेट्रो, दिल्ली, भारत—110085 2. श्रीमती ज्योति बजाज, जी.4 / 19, सेक्टर 16, रोहिणी उत्तर—पश्चिम दिल्ली, मेट्रो, दिल्ली, मारत—110085	03.08.2022 रु. 43,15,167 दिनांक 17.08.2022 तक	प्रा. नं. सी-002 का भाग, क्षेत्रफल 90 वर्ग गज और प्रा. नं. सी-003 का भाग, क्षेत्रफल 42 वर्ग गज (कुल क्षेत्रफल 132 वर्ग गज) ऊपरी भूतल पर निर्मित (सामने की तरफ), प्लॉट नं. ए-1/3 पर निर्मित, क्षेत्रफल 400 वर्ग गज, खसरा नं. 488/1 में से, गाँव मोलरबंद बदरपुर के क्षेत्र में, नई दिल्ली-110044 में स्थित	0.5000.00000000000000000000000000000000

इएमडा आर कवाइसा क साथ निधारत निवदा प्रपन्ना म सीलबंद बोली / प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 04.09.2023 की अपी. 05:00 बजे, क्षेत्रीय कार्यालय 418 चतुर्थ तल, पर्ल ओमेक्स टॉवर-2, नेताजी सुभाष प्लेस नई दिल्ली 110034 किया जा सकता है। जो निविदाएं नहीं भरी गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अमान्य निविदा मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकार कर दी जाएंगी।

2. संपत्ति हेतु बोली / प्रस्ताव (भौतिक नीलामी तिथि) खोलने की तिथि 05.09.2023 को उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय 418, चौथी मंजिल, पर्ल ओमैक्स टावर 2. नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034 पर खोली जाएगी। निविदा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली

3. अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 02.09.2023 को पूर्वोह्न 11 बजे से सांय 5 बजे के बीच किया जा सकता है।

4. इसके अलावा, नोटिस में राशि पर ऋण समझौते के अनुसार लागू होने पर बकाया ब्याज लगाया जाएगा और आकरिमक खर्च, लागत, आदि, इसकी वसली तक देय हागा।

एतद्दवारा ऋणी और सह–उधारकर्ता को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और ऊपर वणित

अनुसार अचल संपत्ति खरीदने हेतु इच्छुक खरीदारों / क्रेता को ला सकते हैं, बिक्री के नियम और शर्तों के विवरण के अनुसार। 6. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों को निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल किया गया है। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में

उच्चतम बोली लगाने पर अचल संपत्ति की बिक्री की जाएगी। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है। उल्लिखित संपत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।

एचएचएफएल (हिंदजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) ऊपर उल्लिखित संपत्ति पर किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी "जैसा है" "जहां है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जाएगा।

9. कुल ऋण बकाया राशि ऋण की राशि नहीं है। अन्य सभी शुल्क (यदि कोई हो) की गणना ऋण के बंद होने के समय की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर संपर्क करें। दिनांक 31.07.2023, स्थान : नई दिल्ली श्री हर्ष तिहारिया, प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 02.08.2023

(कंपनी सचिव)

मोहम्मद सगीर

इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है । लागु प्रावचानों के अनुसार, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कंपनी के सदस्यों को ई—वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग) प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं । ई—वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस के नोट्स में प्रदान की गई है। सदस्य निर्धारित समय से तीस (30) मिनट पहले बैठक में शामिल हो सकते हैं और लॉगिन पूरी बैठक में खुला रखा जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। वे सदस्य जो वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेते हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं ढाला है, वे एजीएम के दौरान अपना वोट डाल रजीएम की तारीख से पहले दरस्थ ई—वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि (दोनों दिन शामिल) के

बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा अक्षम किया जाएगा । एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए नाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे एजीएम नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए । एक बार जब सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान किया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट—ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। भौतिक मोड में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति या जो शेयरों का अधिग्रहण करता

दौरान, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या 022 4886 7000 या 022 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हान्ने वरिष्ठ प्रबंधक, को evoting@nsdl.co.in.पद पर अनुरोध भेज जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है और जो समय—समय पर कंपनी द्वारा नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य सभी संचार प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी

जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.dcmnvl.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com और एनएसडीएल की येबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी पोस्ट किए जाएंगे। डीसीएम नुवेल लिमिटेड

नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com में और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com में और पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत 21 अगस्त 2023 को प्रातः 9.00 बजे (IST) से दूरस्थ ई-वोटिंग का अंत शाम 5.00 बजे तक (IST) 23 अगस्त 2023 को दरस्थ ई–वोटिंग मॉड्यूल को उपरोक्त तिथि और समय से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके

है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर रखता है एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर । प्राप्त कर सकता है । ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, यानी एजीएम से पहले और / या उसके

के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को info@skylinerta.com पर या info@dcmnvl.com पर कंपनी को फॉर्म आईएसआर —1 जमा करके अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं। तथापि, डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी को लिखें । एजीएम के मतदान परिणाम संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट के साथ सांविधिक समय—सीमा के अनुसार घोषित किए